



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{6} \times \frac{5}{7} =$$

$$\frac{7}{5} \times \frac{6}{9} =$$

$$\frac{3}{9} \times \frac{3}{6} =$$

$$\frac{3}{6} \times \frac{7}{2} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{3}{9} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{5}{4} =$$

$$\frac{6}{8} \times \frac{5}{4} =$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{6}{8} =$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{4}{9} =$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{7}{5} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{6} \times \frac{5}{7} = \frac{5}{21}$$

$$\frac{7}{5} \times \frac{6}{9} = \frac{14}{15}$$

$$\frac{3}{9} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{3}{6} \times \frac{7}{2} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{6}{8} \times \frac{5}{4} = \frac{15}{16}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{6}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{4}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{7}{15}$$